

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 फरवरी 2020 — माघ 28, शक 1941

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-31/गृह-सी/2019. — निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा केन्द्र शासन द्वारा जारी मॉडल नियम: निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2018 के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण ( रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा ) नियम, 2020 कहलायेंगे ।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।  
(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -  
(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29);  
(ख) “एटीएम” से अभिप्रेत है स्वचालित गणक मशीन, जो रोकड़ का वितरण करती है या तब अन्य बैंककारी सेवाओं को करती है, जब किसी बैंक का कोई खाता धारक उसमें बैंक कार्ड डालता है;  
स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए “बैंक कार्ड” में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सम्मिलित है;

- (ग) "रोकड़ प्रबंधन अभिकरण" "रोकड़ पुनः पूर्ति अभिकरण" या "वहन में रोकड़ अभिकरण" से अभिप्रेत है कोई अभिकरण या सत्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो रोकड़ परिवहन के कार्यकलापों में लगी हुई है;
- (घ) "रोकड़ परिवहन कार्यकलापों" से अभिप्रेत है रोकड़ जैसे बैंक नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य मूल्यवान मद्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक अंतरण, जिसके अंतर्गत किसी एटीएम मशीन में रोकड़ डालना या उससे रोकड़ को निकालना भी है;
- (ङ) "निजी सुरक्षा" या "निजी सुरक्षा अभिकरण" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) या खंड (छ) में उसके लिये समनुदेशित है;
- (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

3. रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों आदि के लिए निजी सुरक्षा.— (1) रोकड़ परिवहन के कार्यकलापों के लिए तब तक निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण न करता हो।

(2) रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के बीच एक संविदा की जा सकेगी,—

(क) निजी सुरक्षा अभिकरण, जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारित करता हो और संबंधित बैंक, या

(ख) रोकड़ प्रबंधन अभिकरण और संबंधित बैंक,

परंतु यदि रोकड़ प्रबंधन अभिकरण अधिनियम के उपबंधों के अधीन निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में अनुज्ञप्ति धारित करता हो, तो ऐसा रोकड़ प्रबंधन अभिकरण स्वयं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा उपलब्ध करा सकेगा।

4. विशेष रूप से डिजाईन की गई और तैयार की गई रोकड़ वैन का उपयोग.— (1) कोई भी निजी सुरक्षा अभिकरण, किसी बैंक को या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण को रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों के लिए तब तक निजी सुरक्षा या निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करायेगा, जब तक कि ऐसे कार्यकलाप सुरक्षित रोकड़ वैन, जो

प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट डिजाईन और विशिष्टियों की शर्तों के अनुरूप है, जो यथास्थिति, उसके या बैंक के या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के स्वामित्व में है, में नहीं किये जाते हैं।

(2) किसी निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों किसी टैक्सी या किराए पर लिए गए यान का उपयोग नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि कोई यान, जो किसी निजी सुरक्षा अभिकरण या बैंक या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के पास दीर्घ अवधि संविदा पर है और जो उप-नियम (1) के अधीन अभीकथित डिजाईन और विशिष्टियों की शर्तों का अनुपालन करता है, उसका निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि किसी सुदूर अवस्थिति की दशा में, जहाँ निजी सुरक्षा अभिकरण विद्यमान नहीं है और किसी करेंसी तिजोरी द्वारा, जहाँ पर सेवाएं नहीं दी जाती हैं, ऐसे स्थान पर स्थानीय पुलिस के कठोर सुरक्षा नियंत्रण और सहायता के अधीन एक अपवाद के रूप में किसी भी यान का उपयोग किया जा सकेगा।

5. प्रति रोकड़ वैन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारीवृंद की अपेक्षित संख्या.— (1) निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए, अपने द्वारा प्रत्यक्षतः नियुक्त या नियोजित प्रशिक्षित कर्मचारीवृंद, जैसा कि उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट है, की अपेक्षित संख्या के साथ निजी सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक रोकड़ वैन में प्रत्येक एकल रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऐसे कर्मचारीवृंद होंगे, जिनके पास अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिकथित अर्हताएं और प्रशिक्षण हों, अर्थात्:—

(एक) चालक — एक;

(दो) सशस्त्र सुरक्षा गार्ड — दो; और

(तीन) एटीएम अधिकारी या अभिरक्षक— दो।

(3) रोकड़ वैन की सभी समय कम से कम दो प्रशिक्षित सशस्त्र गार्डों द्वारा अभिरक्षा की जाएगी :

परंतु वहन की जा रही रोकड़ की रकम पर निर्भर करते हुए, व्यक्ति कंपनी के बीमा मार्गदर्शन सिद्धांतों या ग्राहक संविदा या प्रचालन किए जा रहे स्थान के अनुसार किसी रोकड़ वैन में दो से अधिक सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जा सकेगा।

- (4) जहां कोई रोकड़ वैन, मध्यम मोटर यान है, वहन के दौरान चालक के साथ आगे एक सशस्त्र गार्ड बैठेगा और दूसरा वैन के पिछले भाग में बैठेगा तथा अभिवहन, लादने या उतारने, शौच, चायपान या भोजनावकाश के दौरान कम से कम एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड सभी समय रोकड़ वैन में उपस्थित रहेगा।
- (5) इन नियमों में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी अन्यथा पात्र भूतपूर्व सैनिक को रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिये सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त करने या नियोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. **कार्मिकों के पूर्ववृत्त की जांच.—** (1) निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए किसी कार्मिक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा या तब तक नहीं लगाएगा या तैनात नहीं करेगा, जब तक तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार अभिकरण द्वारा उन्हें नियुक्त करने या लगाने या तैनात करने से पूर्व, ऐसे कार्मिकों के पूर्ववृत्त की पूर्ण जांच और उसका उचित केवाईसी सत्यापन तथा पुलिस सत्यापन न कर लिया जाये।

**स्पष्टीकरण—** इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए शब्द “केवाईसी” से अभिप्रेत है अभिकरण या कारोबार से सहयोजित या सहयोजित किये जाने वाले उसके ग्राहकों या व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन करने वाले अभिकरण या कारोबार के “अपने ग्राहक को जानिये” की प्रक्रिया।

(2) प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन कार्यकलाप में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या लगाए जाने से पहले निम्नलिखित जांचों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:—



- (क) पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र— प्रत्येक व्यक्ति, नियुक्ति किए जाने या लगाने से पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (ख) निवास स्थान सत्यापन— निजी सुरक्षा अभिकरण, प्रत्येक व्यक्ति के निवास स्थान के पते का भौतिक सत्यापन, जिसके अंतर्गत आचरण की जांच भी शामिल है, अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करते हुए करेगा और व्यक्ति, रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए नियुक्त होने या लगाए जाने से पहले कम से कम तीन वर्ष के निवास स्थान के पते का प्रमाण, सुरक्षा अभिकरण को देगा।
- (ग) पूर्व नियोजक की जांच— निजी सुरक्षा अभिकरण, व्यक्ति के पूर्व नियोजन की संदर्भ सहित जांच, अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करते हुए, करेगा।
- (घ) आधार का सत्यापन— रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए नियुक्त या लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, भारत के विशिष्ट पहचान अधिकरण से आधार नंबर के माध्यम से पूर्व सत्यापन कराएगा।
- (ङ) प्रत्यय इतिहास की जांच— निजी सुरक्षा अधिकरण, प्रत्येक नियुक्त या लगे हुए व्यक्ति के प्रत्यय इतिहास की जांच, यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए नियुक्त या लगा हुआ व्यक्ति, विलफुल क्रेडिट डिफाल्टर (जानबूझकर प्रत्यय व्यतिक्रमी) नहीं हैं।
- (च) विश्वसनीयता बीमा— निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए नियुक्त किए गए या लगाये गये प्रत्येक कार्मिकों के संबंध में विश्वसनीयता बीमा अभिप्राप्त करेगा।
7. कार्मिकों का पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन.— निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए नियुक्ति या लगाए गए प्रत्येक कार्मिक को,—

(क) द्वितीय अनुसूची में अधिकथित प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे कार्यकलापों की सुरक्षा और सुरक्षित प्रबंध के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र दिया जाएगा; और

(ख) प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाएगा।

8. प्रचालनों के दौरान रोकड़ बैंक की सजीव जीपीएस खोज.— (1) प्रत्येक रोकड़ परिवहन कार्यकलाप ऐसी सुरक्षित रोकड़ बैंकों में किए जाएंगे, जिनमें जीपीएस खोज युक्ति लगी हो।

**स्पष्टीकरण**—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए शब्द "जीपीएस" से अभिप्रेत है ऐसी वैश्विक स्थिति प्रणाली, जो ऐसी अंतरिक्ष आधारित नेवीगेशन प्रणाली है, जो सभी मौसम की दशा में अवस्था और समय की सूचना पृथ्वी पर कहीं भी या उसके निकट वहाँ उपलब्ध करती है जहाँ चार या अधिक जीपीएस उपग्रहों की दृष्टि की अवरुद्ध पंक्ति हो।

(2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रोकड़ बैंक हर समय परिपूर्ण संचार नवाचार के माध्यम से रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के दौरान निगरानी की जाएगी।

9. एकल रोकड़ बैंक में अधिकतम रोकड़ ले जाने के लिए मार्गदर्शन.— (1) रोकड़ परिवहन कार्यकलाप में शामिल निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई रोकड़ बैंक प्रति दौरे पर पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं ले जाये।

(2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति दौरे पर दस लाख रुपये से अधिक रोकड़ ले जाने के लिए सुरक्षित रोकड़ बैंक अभिनियोजित किया जाये।

10. बैंक करेंसी के रखे जाने तथा रात भर उसे अंतःकक्ष में रखने के लिए प्रयोग किए गए निजी रोकड़ अंतःकक्ष के लिए विनिर्देश.— निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रोकड़ प्रबंधन, जिसके अंतर्गत गणना, छंटाई और बंडल बांधने संबंधी कार्यकलाप भी हैं, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित परिसरों में किया जाएगा, अर्थात्—

(क) निजी रोकड़ अंतःकक्ष परिसरों की अवस्थिति— रोकड़ प्रबंधन कार्यकलापों के संबंध में उपयोग किए गए परिसर इस तरह से अवस्थित हों, जिससे कि

कार्यकलापों /संक्रियाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो बैंक के रोकड़ निकासी केन्द्र या पुलिस स्टेशन के समीपतम हैं और इनमें ऐसे एकांत क्षेत्र भी हैं, जिनकी अल्प संयोजकता से बचा जा सके;

(ख) परिसरों का डिजाईन— परिसरों को इस तरह से डिजाईन किया जाएगा कि उनमें दो भौतिक रूप से स्वतंत्र क्षेत्र होंगे, जिनमें से एक साधारण कार्यालय प्रयोजन के लिए और दूसरा सुरक्षित रोकड़ प्रक्रिया एवं प्रबंधन कार्यकलापों को सम्मिलित करने के लिए होगा और उसके अंदर सुरक्षित रोकड़ वैनों पर रोकड़ जमा, संग्रहण, छंटाई, गणना और रोकड़ का परिदान करने और प्रेषण के लिए स्थान होगा;

(ग) रोकड़ अंतःकक्ष —निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार रोकड़ अंतःकक्षों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अपेक्षा को पूरा करने हेतु रोकड़ भंडारण के लिए सुरक्षित क्षेत्र डिजाईन किया जाएगा, अर्थात्:

(एक) ऐसे छोटे शहरों में, जिनकी दस करोड़ रुपये से कम की सीमित रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें रक्षक अलमारी वाली तिजोरी हो;

(दो) ऐसे प्रचालन केन्द्रों पर, जिनमें दस से एक सौ करोड़ रुपये तक की रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें ग श्रेणी अंतःकक्षों के लिए विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक के सनियमों के अनुसार अंतःकक्ष सुविधा हो;

(तीन) ऐसे वृहद प्रचालन केन्द्रों पर, जहां एक सौ करोड़ रुपये से अधिक रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उन पर संबंधित बैंक के परामर्श से वर्धित अंतःकक्ष सुविधा हो; और

(चार) सभी रातभर अंतःकक्ष सुविधाओं में पृथक और अन्यत्र पात्रों में बहु बैंकों की करेंसी को भंडारित करने की व्यवस्था हो;

(घ) रोकड़ अंतःकक्षों की सुरक्षा— निजी सुरक्षा अभिकरण बैंक की ओर से रोकड़ के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रयोग किए गए उसके रोकड़ अंतःकक्ष में निम्नलिखित सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:—

(एक) सशस्त्र निजी सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त संख्या चौबीस घंटे तैनात हो;

(दो) परिसर 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और मानीटरी के अधीन हो;

- (तीन) रोकड़ अंतःकक्ष में कैमरों की पर्याप्त संख्या के साथ सीसीटीवी प्रणाली लगी हुई हो, जिसमें कम से कम 90 दिन रिकार्ड करने की सुविधा हो;
- (चार) रोकड़ अंतःकक्ष में कार्यकलाप दोहरी अभिरक्षा आधार के अधीन हो;
- (पांच) मुख्य रोकड़ अंतःकक्ष क्षेत्र सभी सुरक्षा सन्नियमों जैसे अग्निशमन प्रणाली, धूम्र खोज प्रणाली, आपात लाईट, यानों के संचलन को निगरानी करने के लिए नियंत्रण कक्ष, स्व-डायलकर्ता और चोरी सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन करता हो;
- (छः) जी.एस.एम. आधारित स्व-डायलकर्ता, अग्नि और मैग्नेटिक सेंसर वाले सुरक्षा अलार्म संस्थापित किए गए हों;
- (सात) रोकड़ की लदाई और उतराई क्षेत्र रात्रि दृष्टि सीसीटीवी कैमरों द्वारा आच्छादित हो;
- (आठ) रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर इलेक्ट्रिक विद्युत प्रदाय प्लग इन और प्लग आउट सिस्टम के माध्यम से लगाया गया हो;
- (नौ) रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर अनावृत्त लाईट ले जाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध हो और शुष्क बैटरी प्रचालित टार्च या आपात लाईट तिजोरी के अंदर प्रयोग की जाती हो;
- (दस) इन्वर्टर की सहायता से आपात प्रकाशक सुरक्षा कर्मचारीवृंदों को सदैव उपलब्ध हो; तथा
- (ग्यारह) रोकड़ प्रसंस्करण और अंतःकक्ष क्षेत्रों की अधिमानतः इंटरलॉकिंग प्रणालियों और फिस्किंग के माध्यम से निर्बाधित और नियंत्रित पहुंच हो;
- स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "सीसीटीवी" से अभिप्रेत है ऐसा बंद परिपथ वाला टेलीविजन, जो भंडार या कंपनी में कार्यकलापों को निगरानी करने के लिए कैमरों, रिकार्डरों और डिस्प्ले से मिलकर बने स्वतः पूर्ण निगरानी प्रणाली है।

11. जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपाय.— (1) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुरक्षा के अधीन एटीएम में, कर्मिदल उठाईगिरी हानि तथा

एटीएम केपट की घटनाओं को कम करने के लिए एक बारगी इलेक्ट्रानिक संयोजन ताले लगे होंगे।

(2) किसी एटीएम मशीन में रोकड़ भरण के लिए पूर्व दिन या पूर्वान्ह पर बैंक से संग्रहण होगा ताकि उप-नियम 3 में नियत समय से पहले प्रचालन समाप्त हो सके।

(3) एटीएम रोकड़ भरने या रोकड़ परिवहन कार्यकलाप—

(क) नगरीय क्षेत्रों में 9 अपराह्न के बाद

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 6 अपराह्न के बाद

(ग) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में 9 बजे पूर्वान्ह के पहले या 4 अपराह्न के बाद नहीं किया जाएगा।

(4) विशेष मामलों में राज्य शासन द्वारा उक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव.

## प्रथम अनुसूची

(नियम 4 (1) देखिये)

### सुरक्षित रोकड़ वैन के लिए डिजाईन और विशिष्टता

#### (क) मेक-रोकड़ वैन-

(एक) कम से कम 2200 सीसी क्षमता वाले इंजन के साथ, अधिमानतः टर्बोचार्जित, हल्का वाणिज्यिक यान होगी;

(दो) 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी;

(तीन) में ट्यूबरहित टायर लगे होंगे;

(चार) में कम से कम 190 मि.मी. भू अंतस्थान होगा; और

(पांच) में न्यूनतम पांच यात्रियों की जगह होगी;

(ख) अभिविन्यास- रोकड़ वैन में रोकड़ भंडारकरण के लिए यात्री कंपार्टमेंट यूनिट से वस्तुतः पृथकतः और बंद कंपार्टमेंट होगा;

#### (ग) रोकड़ कंपार्टमेंट सुरक्षा-

(एक) रोकड़ कंपार्टमेंट, वैन के बाहरी भाग से तब तक पहुंच से बाहर होना चाहिये, जब तक आंतरिक रूप से हस्तचालित या इलेक्ट्रॉनिक ताले के माध्यम से प्रचालित न किया जाए और रोकड़ वैन में केवल एक द्वार तथा जाली का फाटक विशेष रूप से स्टील के साथ प्रबलित रूप से लगा हो;

(दो) रोकड़ कंपार्टमेंट का प्रवेश पीछे की ओर से होगा, जिससे उचित दृश्यमानता, संक्रियात्मक साध्यता और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जा सके;

(तीन) सभी खिड़कियां और हवा रोक शीशे एक वर्ग इंच से अनधिक के तार की जाली से बने होंगे और प्रत्येक खिड़की की जाली में शस्त्रों के प्रयोग के लिए छह इंच व्यास का एक चक्रीय छिद्र होगा।

(चार) हूटर बजाने के लिए संकट बटन ड्राइवर और अन्य अभिधारकों के पास उपलब्ध हैं।

(घ) रोकड़ बॉक्स सुरक्षा— प्रत्येक बक्सा, तल पर पृथक जंजीरों और तालों से सुरक्षित किया जाएगा, जो विभिन्न अभिरक्षकों के पास रखी हुई अलग-अलग चाबियों के प्रयोग से खोला और बंद किया जा सके और प्रत्येक बैंक के लिए रोकड़, अधिमानतः, किसी अलग बक्से में जिस पर उस बैंक का नाम लिखा हो, ले जाया जाएगा।

(ड.) अन्य सुरक्षा विशिष्टताएं—

(एक) रोकड़ वैन में एक छोटा सीसीटीवी सिस्टम लगा होगा जिसमें कम से कम पांच दिन की रिकार्डिंग करने की सुविधा हो और तीन कैमरे केबिन के आगे, पीछे और भीतर लगे हुए हों।

(दो) जीएसएम आधारित स्व-डायलकर्ता सुरक्षा अलार्म मोटर चालित सायरन लगा होगा।

(तीन) रोकड़ वैन में, किसी आक्रमण की दशा में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भोंपू अग्निशमन यंत्र और आपात लाइटें लगी होंगी।



## द्वितीय अनुसूची

(नियम 7 (1) (क) देखिये)

रोकड़ परिवहन कार्यकलापों में लगे हुए या नियुक्त कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण

(क) रोकड़ संभालने और रोकड़ परिवहन कार्यकलापों की जानकारी.—

- (एक) सेवा का क्षेत्र
- (दो) दल संरचना
- (तीन) चालक, सशस्त्र गार्ड, रोकड़ अभिरक्षक के कार्य
- (चार) रोकड़ वैनों का कार्यान्वयन
- (पांच) संबद्ध अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे
- (छः) धमकी और अंतर्वर्तित जोखिम
- (सात) रिपोर्ट करने की प्रक्रिया।

(ख) धमकी और जोखिम.—

- (एक) आपराधिक और उपद्रवी गतिविधियां
- (दो) यान रखने वाले अपराधियों द्वारा पीछा किया जाना
- (तीन) स्थैतिक और गतिमान यान को विनिर्दिष्ट धमकियां
- (चार) आंतरिक धमकी
- (पांच) दल सदस्यों द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार
- (छः) जीवन हानि और आपात
- (सात) सड़क दुर्घटना और यान की खराबी
- (आठ) अग्नि दुर्घटना।

(ग) रोकड़ वैन की रक्षा और सुरक्षा.—

- (एक) रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने वाली रोकड़ वैन की अंतस्थ सुरक्षा  
विशिष्टता
- (दो) रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए रोकड़ बॉक्स
- (तीन) तालाबंद करना और सुरक्षा पद्धति
- (चार) शस्त्र और गोला बारुद

- (पांच) संसूचना उपस्कर
- (छः) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
- (सात) अग्निशमन यंत्र
- (आठ) संकट अलार्म
- (नौ) प्राथमिक उपचार किट।

**(घ) अभिकरण.—**

- (एक) निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी
- (दो) पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, पुलिस दूरभाष सहायता
- (तीन) नियंत्रणकारी पर्यवेक्षक और प्रचालन प्रबंधक
- (चार) संबद्ध बैंक का प्रतिनिधि
- (पांच) एंबुलेंस और अस्पताल सेवाएं।

**(ङ) शस्त्र, गोला-बारुद और दस्तावेज.—**

- (एक) गार्डों को न्यूनतम 12 बोर डीबीबीएल शॉटगन बंदूक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बंदूक का दो वर्ष में कम से कम एक बार फायर का परीक्षण होना चाहिए। बंदूक के कारतूस दो वर्ष में एक बार बदले जाने चाहिए। बंदूक की सरकार से अनुमोदित शस्त्रशाला द्वारा जांच तथा प्रमाणित कराई जानी चाहिए।
- (दो) दस्तावेज—बंदूक अनुज्ञप्ति, पहचान पत्र और प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के दौरान शस्त्र ले जाने की अनुज्ञा
- (तीन) उपद्रवियों द्वारा ले जाए जाने वाले वास्तविक शस्त्र
- (चार) अन्य वस्तुएं जो उपद्रवियों द्वारा शस्त्र के रूप में प्रयोग की जा सकें।

**(च) आपात और घटना प्रतिक्रिया.—**

- (एक) संकट चेतावनी प्रक्रिया
- (दो) संबद्ध अभिकरणों से सहायता वांछा करना
- (तीन) अपराधियों और उपद्रवियों को भय दिखाकर रोकने और मुकाबला करने के लिए शस्त्र का प्रयोग
- (चार) दल सदस्यों और प्रेषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना

- (पांच) स्थिति से मुकाबला करना और यान को सुरक्षित जगह की ओर ले जाना  
(छः) घायलों को निकालना।

**(छ) अन्य आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रिया—**

- (एक) पूर्ववृत्त की जांच प्रक्रिया  
(दो) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) और प्रसुविधाएं  
(तीन) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) और प्रसुविधाएं  
(चार) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) और प्रसुविधाएं  
(पांच) छुट्टी हकदारी और आवेदन प्रक्रिया  
(छः) अन्य कंपनी नियम  
(सात) कर्मचारी के रूप में बाध्यता।

अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 4-31/गृह-सी/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-02-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव.

Atal Nagar, the 7th February 2020

## NOTIFICATION

No.F 4-31/HOME C/2019.—In exercise of powers conferred by Section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (No. 29 of 2005) and in pursuance of Model Rules: The Private Security Agencies (Private Security for Cash Transportation Activities) Rules 2018 by the Central Government, the Government of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, namely :-

## **RULES**

**1. Short title, extent and commencement.** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Act**" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005);

(b) "**ATM**" means the Automated Teller Machine that dispenses cash or performs other banking services when an account holder of any bank insert a Bank card therein;

Explanation- For the purposes of this clause "Bank card" includes credit card or debit card;

(c) "**Cash Handling Agency**" "cash replenishment agency" or "cash-in-transit agency" means an agency or entity, by whatever name called, engaged in cash transportation activities;

(d) "**Cash Transportation Activities**" means the physical transfer of cash, such as banknotes, coins, credit card, debit card or other items of value from one location to another, and includes loading cash in to, or unloading cash from, an ATM machine;

- (e) "**Private Security**" or "**Private Security Agency**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) or clause (g) of Section 2 of the Act;
- (f) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules.

**3. Private Security for cash transportation activities etc.** -(1) No private security shall be provided by the private security agency for cash transportation activities unless he holds a license under the Act.

(2) For the purpose of providing private security for cash transportation activities, a contract may be entered into between,-

- (a) a private security agency holding a license under the Act and the bank concerned; or
- (b) a cash handling agency and the bank concerned:

Provided that in case the cash handling agency holds a license as a private security agency under the provisions of the Act, such cash handling agency may itself provide the private security to cash transportation activities in accordance with the provisions of these rules.

**4. Use of specially designed and fabricated cash van.**-(1) No private security agency shall provide private security or private security guards to a Bank or a cash handling agency for cash transportation activities, unless such activities are carried out in a secured cash van, which complies with the conditions for design and specification specified in the First Schedule, owned by it or owned by the Bank or the cash handling agency, as the case may be.

(2) No taxi or hired vehicle shall be used for cash transportation activities by the private security agency:

Provided that a vehicle which is in long term contract with the private security agency or Bank or cash handling agency and the vehicle complies with the conditions for design and specification laid down under sub-rule (1), it may be used by the private security agency:

Provided further that in case of any remote location where private security agencies are not present and not serviced by a currency chest, any vehicle at such location may be used as an exception under the strict security control and support of the local police.

**5. Requisite number of trained staff per cash van.**-(1) The private security agency shall provide the private security for the cash transportation activities with the requisite number of trained staff, directly

appointed or engaged by the private security agency, as specified in sub-rule(2).

(2) Every cash van shall have the following minimum staff, possessing the qualifications and training laid down under section 10 of the Act, on board for every single cash transportation activities, namely:-

- (i) Driver- one;
- (ii) Armed security guards- two; and
- (iii) ATM officer or custodian – two

(3) The cash van shall always be escorted by at least two trained armed security guards on board:

Provided that more than two armed security guard may be deputed on a cash van depending on the amount of cash carried and in accordance with the individual company's insurance guidelines or client contract or terrain of operation.

(4) Where the cash van is a medium motor vehicle, one armed guard shall sit in the front along with the driver and another in the rear portion of the van and while in transit, loading or unloading, nature's call, tea or lunch break, at least one armed security guard shall remain present with the cash van all the time.

(5) Notwithstanding any other provision in these rules, the ex-serviceman, otherwise eligible, may preferably be appointed or engaged by the private security agency for providing security for cash transportation activities.

**6. Antecedent check of personnel.-** (1) No private security agency shall appoint or engage or deploy any personnel for the cash transportation activities, unless such personnel has undergone thorough antecedent check and his proper KYC verification and police verification is done, before appointing or engaging or deploying them by the agency, in accordance with the provisions of the Act or any other law for the time being in force.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-rule, the expression "KYC" means to know your customer process of an agency or business identifying and verifying the identity of its clients or person associated or to be associated with the agency or business.

(2) Every private security agency shall be responsible to comply with the following checks before an individual is appointed or engaged to participate in cash transportation activities, namely:-

- (a) police clearance certificate- every individual shall obtain the police clearance certificate from his local police station before appointment or engagement.
- (b) residence verification- the private security agency shall use its own resources to conduct a physical verification of the residential address of every individual, including general conduct check and the individual shall furnish to the security agency the proof of residential address of atleast three years before appointment or engagement for the cash transportation activities;
- (c) previous employer check- the private security agency shall use its own resources to conduct reference check with previous employers of the individual, if any;
- (d) Aadhar verification- each individual appointed or engaged for the cash transportation activities shall be antecedent verified through Aadhar number from the Unique Identification Authority of India;
- (e) credit history check- the private security agency shall conduct a credit history check of every individual appointed or engaged to ensure that wilful credit defaulters are not appointed or engaged for the cash transportation activities;
- (f) fidelity insurance- the private security agency shall obtain a fidelity insurance in respect of every personnel appointed or engaged for the cash transportation activities.

**7. Adequate training and certification of personnel.-** The private security agency shall ensure that every personnel appointed or engaged for cash transportation activities shall be imparted,-

- (a) the training and certified for the security and safe handling of such activities as per the requirements of training laid down in the Second Schedule;
- (b) The refresher training once in every two years.

**8. Live GPS tracking of cash van during operations.-** (1) Every cash transportation activities shall be carried out only in secured cash vans fitted with GPS tracking device.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-rule, the expression "GPS" means the global positioning system which is a space based navigation system that provides location and time information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites.



(2) The private security agency shall ensure that each cash van shall be monitored at all times during cash transportation activities through a redundant communications protocol.

**9. Guideline for maximum cash carrying limit in a single cash van.- (1)**

The private security agency involved in cash transportation activities shall ensure that no cash van carries cash of more than five crores rupees per trip.

(2) The private security agency shall ensure that secured cash van shall be deployed for carrying cash of more than ten lakh rupees per trip.

**10. Specification for private cash vaults used for holding and overnight vaulting of Bank currency.-** The private security agency shall ensure that all cash handling, including counting, sorting, and bundling activities shall be carried out in secured premises in accordance with the following guidelines, namely:-

- (a) Location of private cash vault premises- the premises used for cash handling activities shall be located to ensure safety of activities/operations, including areas closer to bank's cash withdrawal centre or police station and secluded areas with poor connectivity be avoided;
- (b) Design of premises- the premises shall be designed to include two physically independent areas, one for general office purpose and other for secured cash processing and handling activities and it shall accommodate space for cash deposit, collection, sorting, counting and delivery and dispatch of cash on secured cash vans;
- (c) Cash vault- a secured area shall be designed to store cash to meet with the requirement of the Reserve Bank of India specified for cash vaults in accordance with the following specifications, namely:-
  - (i) in smaller cities with limited overnight vaulting requirements of less than ten crore rupees, a strong room with defender safes;
  - (ii) at operation centres with overnight vaulting requirements between ten to one hundred crore rupees, vaulting facility as per the norms of the Reserve Bank of India specified for C Class vaults;
  - (iii) at large operation centres with overnight vaulting requirements of more than one hundred crore rupees, increased vaulting facility in consultation with the concerned Bank; and
  - (iv) all overnight vaulting facilities shall have provision to store currency of multiple Banks in separate and exclusive bins;

- (d) Security of cash vault- the private security agency shall ensure the following security aspects at its cash vault used for secured handling of cash on behalf of the Bank, namely:-
- (i) adequate number of armed private security guards are deputed round the clock;
  - (ii) premises is under 24x7 electronic surveillance and monitoring;
  - (iii) cash vault is provided with CCTV system with adequate number of cameras having at least ninety days recording facility;
  - (iv) the activities at cash vault is undertaken under dual custody basis;
  - (v) the main cash vault area complies with all safety norms, like fire fighting systems, smoke detection systems, emergency lighting, control room for monitoring the movement of vehicles, auto-dialer and burglar security systems;
  - (vi) security alarm with GSM based auto dealer, fire and magnetic sensor are installed;
  - (vii) the loading and unloading area of cash is covered by night vision CCTV cameras;
  - (viii) electric power supply inside the cash vault is provided through plug-in, plug-out system;
  - (ix) carrying of naked light inside the cash vault is strictly prohibited and dry battery operated torches or emergency lights are used inside strong rooms;
  - (x) emergency lighting with the help of inverter shall always be available to the security staff; and
  - (xi) cash processing and vault areas shall have restricted and controlled access, preferably through interlocking systems and frisking.

**Explanation-** For the purposes of this rule, the expression "CCTV" means the closed circuit television which is a self contained surveillance system comprising cameras, recorders and displays for monitoring activities in a store or company.

- 11. Measures for risk mitigation.** - (1) The private security agency shall ensure that the ATM under its security shall be fitted with one time electronic combination locks for reducing the instances of crew pilferage losses and ATM frauds.
- (2) The cash for loading in to an ATM machine shall be collected from the Bank on previous day or in the first half of the day so that operations can be concluded before the time stipulated in sub-rule (3).

(3) No cash loading of the ATMs or cash transportation activities shall be done-

- (a) after 9 PM in urban areas;
- (b) after 6 PM in rural areas; and
- (c) before 9 AM or after 4PM in the districts notified by the Central Government as Left Wing Extremism (LWE) affected areas.

(4) State Government in special cases may grant relaxation in above prescribed time limits.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SUBRAT SAHOO, Additional Chief Secretary.

**THE FIRST SCHEDULE**

[See rule 4 (1)]

**DESIGN AND SPECIFICATION FOR SECURED CASH VANS**

- (a) **Make.-** The cash van shall --
- (i) be a Light Commercial Vehicle, with an engine capacity of not less than 2200CC, preferably turbocharged;
  - (ii) be not more than seven years old;
  - (iii) have tubeless tyres;
  - (iv) have a ground clearance of not less than 190 mm; and
  - (v) accommodate minimum of five passengers.
- (b) **Layout.-** The cash van shall have the compartment for storing cash physically separated and locked from the passenger compartment unit;
- (c) **Cash compartment security.-**
- (i) The cash compartment should be inaccessible from outside the van unless operated internally through manual or electronic lock and cash compartment is specially reinforced with steel with only one door and grill gate;
  - (ii) the entrance of the cash compartment shall be from the rear side to ensure proper visibility, operational feasibility and CCTV surveillance;
  - (iii) all windows and wind screen shall have wire mesh protection of not more than one square inch and each window mesh shall have a circular port-hole of six inches diameter for use of weapons;
  - (iv) the panic switches for operating the hooter are available with the driver and other occupants.
- (d) **Cash box security.-** Each of the cash boxes shall be secured to the floor with separate chains and have locks that can be opened or locked only by using separate keys kept with different custodians and cash for each bank shall be carried, preferably, in a separate box with the name of the bank written on it.
- (e) **Other security features.-**
- (i) The cash van shall be provided with a small CCTV system with at least five days recording facility and three cameras installed in front, rear and inside of the cabin.
  - (ii) A security alarm with GSM based auto-dialer shall be provided with a motorised siren.
  - (iii) The cash van shall be equipped with hooter, fire extinguishers and emergency lights to ensure quick reaction in case of an attack.

**THE SECOND SCHEDULE**

[See rule 7 (1)(a)]

**TRAINING FOR PERSONNEL APOINTEED OR ENGAGED IN CASH TRANSPORTATION ACTIVITIES****(a) Basics of cash handling and cash transportation activities.-**

- (i) Scope of service
- (ii) Team composition
- (iii) Role of driver, armed guard, cash custodian
- (iv) Functioning of cash vans
- (vi) Contact details of concerned agencies
- (vii) Threat and risks involved
- (viii) Reporting procedure

**(b) Threat and risks.-**

- (i) Criminal and miscreant action
- (ii) Taling by vehicle-borne criminals
- (iii) Specific threats to stationary and moving vehicle
- (iv) Insider's threat
- (v) Fraudulent practices by team members
- (vi) Loss of life and medical emergency
- (vii) Road accident and vehicle breakdown
- (viii) fire accident

**(c) Safety and security of cash van.-**

- (i) In-built safety features of the cash van carrying cash and valuables
- (ii) Cash boxed for carrying cash and valuables
- (iii) Locking and security systems
- (iv) Weapon and ammunition
- (v) Communication equipment
- (vi) Global Positioning System
- (vii) Fire extinguishers
- (viii) Distress alarm
- (ix) First-aid kit

**(d) Agencies.-**

- (i) Controlling Authority under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005)
- (ii) Police station, PCR vans, police helpline
- (iii) Controlling supervisor and operations manager
- (iv) Concerned Bank representative
- (v) Ambulance and hospital services

**(e) Weapons, ammunition and documents.-**

- (i) Minimum 12 bore DBBL shot gun should be provided to the guards. Gun must be test fired at least once in two years.

Gun cartridges must be replaced once in 02 years. Gun must be checked and certified by a Government approved armourer.

- (ii) Documents- gun license, identity card and permission to carry weapon during restrictions imposed by authorities
- (iii) Real weapons carried by miscreants
- (iv) Other objects which can be used as weapon by miscreants

**(f) Emergency and incident response.-**

- (i) Distress alarm procedure
- (ii) Seeking help from concerned agencies
- (iii) Use of weapon to deter and resist criminals and miscreants
- (iv) Ensure safety of team members and consignment
- (v) Disengage from situation and drive vehicle to safety
- (vi) Evacuation of the injured

**(g) Other internal organizational procedures.-**

- (i) Antecedent check procedure
- (ii) The Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) and benefits
- (iii) The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and benefits
- (iv) The Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and benefits
- (v) Leave entitlement and application procedure
- (vi) Other company rules
- (vii) Obligations as employee